

निर्देश- (1) प्रश्न पत्र के दो खण्ड ह क आर व  
 (2) दोनों खण्डों के प्रश्नोत्तर क्रमानुसार एवं खण्डानुसार लिखना अनिवार्य है।  
 Time: 2 hrs. Marks: 60

## खण्ड - क 'भाषा'

1. निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए- (5)
- |                    |  |
|--------------------|--|
| (1) आर्द्र, कनिष्ठ | (विपरीतार्थी शब्द लिखिए)                 |
| (2) कलि, कली       | (भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ स्पष्ट कीजिए) |
| (3) चर, नाम        | (उचित उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए)           |
| (4) लिखावट, फलवाला | (प्रत्ययों को अलग करके लिखिए)            |
| (5) सच, खेत        | (शब्दों के तत्सम रूप लिखिए)              |
2. निम्नलिखित शब्द-समूहों के लिए समस्तपद लिखकर समास का नाम भी लिखिए- (5)
- | शब्द समूह           | समस्त पद | समास का नाम |
|---------------------|----------|-------------|
| (1) यश को प्राप्त   | .....    | .....       |
| (2) शक्ति के अनुसार | .....    | .....       |
| (3) पथ से भ्रष्ट    | .....    | .....       |
| (4) नीला है जो कंठ  | .....    | .....       |
| (5) नायक और नायिका  | .....    | .....       |
3. वाक्यों में सर्वनाम शब्दों और उनके भेदों को लिखिए। (2)
- (1) बाहर कोई खड़ा है
- (2) यह प्लेट किसने तोड़ी
4. कृत् प्रत्यय तथा तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? सोदाहरण अन्तर स्पष्ट कीजिए। (2)
5. निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। (4)
- स्वस्थ शरीर वाला मनुष्य ही इस संसार के सभी प्रकार के सुखों को भोग सकता है तथा सुखमय जीवन बिता सकता है। स्वस्थ शरीर के लिए पौष्टिक भोजन तथा व्यायाम दोनों ही अतिआवश्यक हैं। व्यायाम करने का भी ढंग होता है। इसे करते समय सदा कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिएँ। पहली सावधानी यह है कि आयु, समय व शरीर की क्षमता के अनुसार ही व्यायाम करना चाहिए। दूसरी सावधानी यह है कि सही व्यायाम का चुनाव करना चाहिए तथा व्यायाम की उचित मात्रा निश्चित करनी चाहिए। तीसरी सावधानी यह है कि शुद्ध वायु, प्रकाश वाले खुले स्थान में व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम के तुरंत बाद स्नान नहीं करना चाहिए। व्यायाम के अनेक लाभ हैं- इससे शरीर में शुद्ध रक्त का संचार होता है, भोजन ठीक से पचता है, शरीर पुष्ट बन जाता है, थकान कम अनुभव होती है तथा मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है।
- (1) गद्यांश का शीर्षक बताइए।
- (2) स्वस्थ शरीर का स्वामी मनुष्य कैसा जीवन व्यतीत करता है?
- (3) स्वस्थ शरीर के लिए क्या आवश्यक है?
- (4) व्यायाम करने के क्या लाभ हैं?

6. जयपुर नगर निगम के जलापूर्ति अधिकारी को पर्याप्त और नियमित रूप से पानी न मिलने की शिकायत करते हुए पत्र लिखिए। (6)

अथवा

मित्र को पत्र लिखकर उन्हें जन्म-दिन की बधाई दीजिए।

7. निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 200 शब्दों में निबन्ध लिखिए। (6)

- (1) दूरदर्शन और हम
- (2) समय का महत्त्व
- (3) प्रदूषण
- (4) नारी सुरक्षा

### खण्ड-ख 'साहित्य'

8. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 50-60 शब्दों में दीजिए- (15)

- (1) ब्राउन के कूच करने की तिथि और दिन सुनकर कौन-कौन और क्यों घबरा गई?
- (2) बूढ़ी दादी का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया?
- (3) समाज और देश की उन्नति तभी संभव है, जब मनुष्य सतत कर्मठ रहेगा उसे सतत कर्मठ बनाए रखने के लिए आपके क्या सुझाव हैं?

9. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए- (4)

- (1) ब्राउन के परिवार में कौन-कौन था?
- (2) ब्राउन को तार किसने भेजा था?
- (3) 'सूरज' किसका प्रतीक है?
- (4) कवि के गीतों में कैसा जादू था?

10. निम्नलिखित पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए- (4)

‘घबरा के भागना अलग है,  
क्षिप्र गति अलग है,  
क्षिप्र तो वह है  
जो सही क्षण में सजग है।

11. लोग लूसी से क्या-क्या काम करवाते थे? (4)

12. निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए- (3)

बेवक्त, ध्वंस, निरापद, प्रतिवाद, बलबलाती, स्तब्ध

\*\*\*\*\*